

SET-3

**Series SSO**कोड नं. **2/3**  
Code No.

रोल नं.

--	--	--	--	--	--

Roll No.

परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 8 हैं।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 14 प्रश्न हैं।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।

**हिन्दी (केन्द्रिक)****HINDI (Core)**

निर्धारित समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

Time allowed : 3 hours

Maximum Marks : 100

**खण्ड क**

1. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

जब समाचार-पत्रों में सर्वसाधारण के लिए कोई सूचना प्रकाशित की जाती है तो उसके विज्ञापन कहते हैं। यह सूचना नौकरियों से सम्बन्धित हो सकती है, खाली मकान को किराये पर उठाने के सम्बन्ध में हो सकती है या किसी औषधि के प्रचार से सम्बन्धित हो सकती है। कुछ लोग विज्ञापन के आलोचक हैं। वे इसे निरथक मानते हैं। उनका मानना है कि यदि कोई वस्तु यथार्थ रूप में अच्छी है तो वह बिना किसी विज्ञापन के ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाएगी जबकि खराब वस्तुएँ विज्ञापन की सहायता पाकर भी भंडाफोड़ होने पर बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएँगी। परन्तु लोगों की यह सोच ग़लत है।



आज के युग में मानव का प्रचार-प्रसार का दायरा व्यापक हो चुका है। अतः विज्ञापनों का होना अनिवार्य हो जाता है। किसी अच्छी वस्तु की वास्तविकता से परिचय पाना आज के विशाल संसार में विज्ञापन के बिना नितान्त असंभव है। विज्ञापन ही वह शक्तिशाली माध्यम है जो हमारी ज़रूरत की वस्तुएँ प्रस्तुत करता है, उनकी माँग बढ़ाता है और अंततः हम उन्हें जुटाने चल पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति या कम्पनी किसी वस्तु का निर्माण करती है, उसे उत्पादक कहा जाता है। उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने वाला उपभोक्ता कहलाता है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य विज्ञापन करता है। वह उत्पादक को उपभोक्ता के सम्पर्क में लाता है तथा माँग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न करता है।

पुराने ज़माने में किसी वस्तु की अच्छाई का विज्ञापन मौखिक तरीके से होता था। काबुल का मेवा, कश्मीर की ज़री का काम, दक्षिण भारत के मसाले आदि वस्तुओं की प्रसिद्धि मौखिक रूप से होती थी। उस समय आवश्यकता भी कम होती थी तथा लोग किसी वस्तु के अभाव की तीव्रता का अनुभव नहीं करते थे। आज समय तेज़ी का है। संचार-क्रांति ने ज़िन्दगी को स्पीड दे दी है। मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ती जा रही हैं। इसलिए विज्ञापन मानव-जीवन की अनिवार्यता बन गया है।

- |  |   |
|--|---|
| (क) गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए।   | 1 |
| (ख) विज्ञापन किसे कहते हैं? वह मानव जीवन का अनिवार्य अंग क्यों माना जाता है?                         | 2 |
| (ग) उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक-उपभोक्ता सम्बन्धों को विज्ञापन कैसे प्रभावित करता है?             | 2 |
| (घ) किसी विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है? जीवन में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।                  | 2 |
| (ङ) पुराने समय में विज्ञापन का तरीका क्या था? वर्तमान तकनीकी युग ने इसे किस प्रकार प्रभावित किया है? | 2 |
| (च) विज्ञापन के आलोचकों के विज्ञापन के सन्दर्भ में क्या विचार हैं?                                   | 2 |
| (छ) आज की भाग-दौड़ की ज़िन्दगी में विज्ञापन का महत्व उदाहरण देकर समझाइए।                             | 2 |
| (ज) उपर्युक्त पृथक् कीजिए:   | 1 |
| अनिवार्य, वास्तविकता।  |   |
| (झ) मिश्र वाक्य में बदलिए:   | 1 |
| ‘वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने वाला उपभोक्ता कहलाता है।’   |   |

2. निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1×5=5

नीड़ का निर्माण फिर-फिर  
नेह का आह्वान फिर-फिर  
वह उठी आँधी कि नभ में  
छा गया सहसा अँधेरा  
धूलि-धूसर बादलों ने  
भूमि को इस भाँति घेरा,  
रात-सा दिन हो गया फिर  
रात आई और काली,  
लग रहा था अब न होगा,  
इस निशा का फिर सवेरा,  
रात के उत्पात-भय से  
भीत जन-जन, भीत कण-कण  
किंतु प्राची से उषा की  
मोहिनी मुस्कान फिर-फिर ।

नीड़ का निर्माण फिर-फिर  
नेह का आह्वान फिर-फिर

- (क) आँधी तथा बादल किसके प्रतीक हैं ? इनके क्या परिणाम होते हैं ?
- (ख) कवि निर्माण का आह्वान क्यों करता है ?
- (ग) कवि किस बात से भयभीत है और क्यों ?
- (घ) उषा की मुस्कान मानव-मन को क्या प्रेरणा देती है ?
- (ङ) ‘रात आई और काली’ का आशय स्पष्ट कीजिए ।



## खण्ड ख

3. निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबन्ध लिखिए : 5
- (क) विद्यार्थी और राजनीति
  - (ख) मेरा प्रिय खेल – कबड्डी
  - (ग) अनेकता में एकता – हिन्द की विशेषता
  - (घ) भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियाँ
4. किसी भी दुर्घटना के दर्शक/साक्षी उस हादसे के प्रति प्रायः उदासीन रहते हैं। उनकी हृदयहीनता की चर्चा करते हुए किसी समाचार-पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। 5

### अथवा

दूरदर्शन पर किशोरों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम भारतीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं हैं। अंग्रेज़ी के डब किए हुए कार्यक्रम भारतीय सामाजिक परिवेश के अनुकूल नहीं होते। इस समस्या पर ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशक, समाचार-भारती को पत्र लिखिए।

5. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए :  $1 \times 5 = 5$
- (क) अंशकालिक पत्रकार से आप क्या समझते हैं ?
  - (ख) पेज श्री पत्रकारिता क्या है ?
  - (ग) जनसंचार का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए।
  - (घ) आल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई ? आजकल यह किस संस्था के अंतर्गत है ?
  - (ङ) फ़ीचर के दो लक्षण लिखिए।
6. ‘सामाजिक सुरक्षा’ अथवा ‘राष्ट्रीय एकता’ पर एक आलेख लिखिए। 5
7. ‘स्वच्छता-अभियान’ अथवा ‘सजग नागरिक’ विषय पर एक फ़ीचर लिखिए। 5

## खण्ड ग

8. निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

$2 \times 4 = 8$

खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि,  
बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी ॥  
जीविका विहीन लोग सीद्यमान सोचबस  
कहें एक एकन सों कहाँ जाई का करी ॥  
बेदहूँ पुरान कही, लोकहूँ विलोकियत  
साँकरे सबै पै राम रावरें कृपा करी ॥  
दारिद दसानन दबाई दुनी, दीनबन्धु,  
दुरित-दहन देखि तुलसी हहा करी ॥

- (क) प्रकृति और शासन की विषमता के कारणों का उल्लेख कीजिए ।
- (ख) तुलसीदास को इस दुरवस्था में किसका भरोसा है और क्यों ?
- (ग) रावण की तुलना किससे की गई है और क्यों ?
- (घ) आशय स्पष्ट कीजिए :  
साँकरे सबै पै राम रावरें कृपा करी ।

अथवा

बात सीधी थी पर एक बार  
भाषा के चक्कर में  
ज़रा टेढ़ी फ़ँस गई ।  
उसे पाने की कोशिश में  
भाषा को उलटा पलटा  
तोड़ा मरोड़ा  
घुमाया फिराया  
कि बात या तो बने  
या फिर भाषा से बाहर आए -  
लेकिन इससे भाषा के साथ-साथ  
बात और भी पेचीदा होती चली गई ।



सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना  
 मैं पेंच को खोलने के बजाए  
 उसे बेतरह कसता चला जा रहा था  
 क्योंकि इस करतब पर मुझे  
 साफ़ सुनाई दे रही थी

तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह ।

- (क) बात को धैर्य से समझने से कवि का क्या आशय है ?
- (ख) बात और भाषा परस्पर एक-दूसरे से कैसे सम्बद्ध हैं ?
- (ग) बात पेचीदा कब हो जाती है ? क्यों ?
- (घ) आशय स्पष्ट कीजिए :  
 भाषा के चक्र में ज़रा टेढ़ी फ़ंस गई ।

**9.** निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए :  $2 \times 3 = 6$

प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भए वानर निकर ।

आइ गयउ हनुमान, जिमि करुना महँ वीर रस ॥

- (क) काव्य-पंक्तियों का भाव-सौंदर्य स्पष्ट कीजिए ।
- (ख) प्रयुक्त दो अलंकारों के उदाहरण चुनकर उनके सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए ।
- (ग) काव्यांश की भाषा-शैली की दो विशेषताएँ लिखिए ।

### अथवा

हँसते हैं पौधे लघु भार

शस्य अपार

हिल-हिल, खिल-खिल

हाथ हिलाते

तुझे बुलाते,

विप्लव-रव से छोटे ही हैं शोभा पाते ।

- (क) काव्यांश का शिल्प-सौन्दर्य स्पष्ट कीजिए ।
- (ख) काव्यांश का भाव-सौंदर्य समझाइए ।
- (ग) प्रयुक्त भाषा की दो विशेषताएँ लिखिए ।



10. निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

3+3=6

- (क) ‘दिन जल्दी-जल्दी ढलता है’ – कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए ।
- (ख) “पतंग लूटने में खतरनाक परिस्थितियों का सामना करके बचे चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं ।” – इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए ।
- (ग) “कविता के बहाने सब घर एक कर देने के माने क्या होते हैं” – स्पष्ट कीजिए ।

11. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

2×4=8

मेरे परिचितों और साहित्यिक बन्धुओं से भी भक्ति विशेष परिचित है; पर उनके प्रति भक्ति के सम्मान की मात्रा, मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है । इस सम्बन्ध में भक्ति की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है ।

वह किसी को आकार-प्रकार और वेश-भूषा से स्मरण करती है, और किसी को नाम के अपश्रंश द्वारा । कवि और कविता के सम्बन्ध में उसका ज्ञान बढ़ा है; पर आदर-भाव नहीं । किसी के लम्बे बाल और अस्त-व्यस्त वेश-भूषा देखकर वह कह उठती है ‘का ओहू कवित लिखे जानत हैं’ और तुरन्त ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है – ‘तब ऊ कुच्छौ करिहैं धरिहैं ना – बस गली-गली गाउत बजाउत फिरिहैं ।’

- (क) लेखिका ने भक्ति की बुद्धि को विस्मित कर देने वाली क्यों कहा है ?
- (ख) कवियों के सम्बन्ध में भक्ति की क्या मान्यता है ?
- (ग) ‘अवज्ञा’ का क्या तात्पर्य है ? भक्ति किसके प्रति कैसे अवज्ञा व्यक्त करती है ?
- (घ) आशय स्पष्ट कीजिए – ‘और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है ।’

अथवा

मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार-लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती ? जरा और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं । तुलसीदास ने अफ़सोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी – ‘धरा को प्रमान यही तुलसी जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना ।’ मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा कि झड़ना निश्चित है । सुनता कौन है ? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें प्राण-कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है, वे टिक जाते हैं । दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरन्तर चल रहा है । मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं, वहाँ देर तक बने रहें तो काल-देवता की आँख बचा जाएँगे ।

- (क) शिरीष की किस विशेषता के कारण लेखक को यह सब लिखना पड़ा है ?
- (ख) मूर्ख अपना स्थान क्यों नहीं छोड़ते हैं ? उन्हें क्या समझना ज़रूरी है ?
- (ग) किस सच्चाई को उजागर करने के लिए तुलसी को उद्धृत किया गया है ?
- (घ) ‘महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं’ कथन से लेखक का क्या आशय है ?

12. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

$3 \times 4 = 12$

- (क) “‘भक्तिन अच्छी है’ यह कहना कठिन है” – महादेवी वर्मा के इस कथन की सोदाहरण समीक्षा कीजिए ।
- (ख) ‘बाज़ार-दर्शन’ के लेखक ने भगत जी का उदाहरण क्यों दिया है ? स्पष्ट कीजिए ।
- (ग) इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने पर लेखक की मान्यता को जीजी कैसे छिन्न-भिन्न कर देती है ? स्पष्ट कीजिए ।
- (घ) ‘पहलवान की ढोलक’ के आधार पर लिखिए कि प्राचीन लोककलाएँ किस प्रकार धीरे-धीरे विलुप्त हो रही हैं । उनके पुनर्जीवन के लिए क्या किया जा सकता है ?
- (ङ) लेखक ने चालीं चैप्लिन का भारतीयकरण किसे कहा है और क्यों ?

13. यशोधर बाबू किन जीवन-मूल्यों को थामे बैठे हैं ? नई पीढ़ी उन्हें प्रासंगिक क्यों नहीं मानती ? तर्कसम्मत उत्तर दीजिए ।

5

14. (क) टूटे-फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ-साथ धड़कती ज़िन्दगियों के अनछुए समयों के जीवन्त दस्तावेज़ होते हैं । कैसे ? ‘अतीत में दबे पाँव’ पाठ के आधार पर उत्तर की पुष्टि कीजिए ।

(ख) ‘जूझ’ कहानी के लेखक के जीवन-संघर्ष के उन बिन्दुओं पर प्रकाश डालिए जो हमारे लिए प्रेरणादायक हैं ।

5

